

सं. 1: चुनिंदा आर्थिक संकेतक

मद	2023-24	2023-24		2024-25	
		ति1	ति2	ति1	ति2
	1	2	3	4	5
1 वास्तविक क्षेत्र (% परिवर्तन)					
1.1 आधार मूल्यों पर जीवीए	7.2	8.3	7.7	6.8	5.6
1.1.1 कृषि	1.4	3.7	1.7	2.0	3.5
1.1.2 उद्योग	9.3	5.0	13.6	7.4	2.1
1.1.3 सेवाएं	7.9	10.4	6.9	7.7	7.1
1.1ए अंतिम खपत व्यय	3.8	4.6	4.1	6.3	5.7
1.1बी सकल नियत पूंजी निर्माण	9.0	8.5	11.6	7.5	5.4
	2023-24	2023		2024	
	1	सित	अक्तू	सित	अक्तू
	1	2	3	4	5
1.2 औद्योगिक उत्पादन सूचकांक	5.9	6.4	11.9	3.1	3.5
2 मुद्रा और बैंकिंग (% परिवर्तन)					
2.1 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक					
2.1.1 जमा राशियाँ	12.9	11.5	12.5	10.8	11.9
	(13.5)	(12.3)	(13.2)	(10.4)	(11.5)
2.1.2 ऋण#	16.3	13.0	15.8	13.7	13.1
	(20.2)	(17.6)	(20.4)	(12.3)	(11.8)
2.1.2.1 गैर-खाद्यान्न ऋण#	16.3	13.1	16.0	13.7	13.1
	(20.2)	(17.6)	(20.5)	(12.4)	(11.8)
2.1.3 सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश	11.1	16.7	16.8	7.7	9.2
	(12.8)	(18.9)	(18.9)	(6.8)	(8.1)
2.2 मुद्रा स्टॉक मात्रा					
2.2.1 आरक्षित मुद्रा (एम0)	5.6	6.4	5.5	6.0	9.0
2.2.2 स्थूल मुद्रा (एम3)	11.1	10.9	10.8	10.8	11.1
	(11.6)	(11.5)	(11.4)	(10.4)	(10.7)
3 अनुपात (%)					
3.1 आरक्षित नकदी निधि अनुपात	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50
3.2 सांविधिक चलनिधि अनुपात	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00
3.3 नकदी-जमा अनुपात	5.0	5.4	5.2	5.1	5.2
	(5.0)	(5.4)	(5.1)	(5.1)	(5.2)
3.4 ऋण-जमा अनुपात	78.1	75.3	76.7	77.3	77.5
	(80.3)	(77.8)	(79.2)	(79.2)	(79.4)
3.5 वृद्धिशील ऋण-जमा अनुपात#	95.8	69.7	88.7	64.6	69.2
	(113.4)	(99.5)	(119.5)	(61.6)	(66.2)
3.6 निवेश-जमा अनुपात	29.5	30.3	30.4	29.4	29.7
	(29.8)	(30.6)	(30.8)	(29.6)	(29.9)
3.7 वृद्धिशील निवेश-जमा अनुपात	25.8	33.2	36.1	27.6	32.5
	(28.4)	(37.0)	(40.2)	(26.2)	(30.6)
4 ब्याज दरें (%)					
4.1 नीति रेपो दर	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50
4.2 स्थायी रिवर्स रेपो दर	3.35	3.35	3.35	3.35	3.35
4.3 स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ) दर*	6.25	6.25	6.25	6.25	6.25
4.4 सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर	6.75	6.75	6.75	6.75	6.75
4.5 बैंक दर	6.75	6.75	6.75	6.75	6.75
4.6 आधार दर	9.10/10.25	8.85/10.10	8.95/10.10	9.10/10.40	9.10/10.40
4.7 एमसीएलआर (एक दिन के लिए)	8.00/8.60	7.95/8.45	7.95/8.45	8.15/8.45	8.15/8.45
4.8 मौयादी जमा दर >1 वर्ष	6.50/7.25	6.00/7.25	6.00/7.75	6.00/7.25	6.00/7.25
4.9 बचत जमा दर	2.70/3.00	2.70/3.00	2.70/3.00	2.70/3.00	2.70/3.00
4.10 मांग मुद्रा दर (भारित औसत)	6.85	6.75	6.74	6.61	6.63
4.11 91-दिवसीय खजाना बिल (प्राथमिक) प्रतिफल	-	6.86	6.93	6.65	6.51
4.12 182-दिवसीय खजाना बिल (प्राथमिक) प्रतिफल	7.28	7.08	7.14	6.72	6.64
4.13 364-दिवसीय खजाना बिल (प्राथमिक) प्रतिफल	7.31	7.08	7.16	6.70	6.60
4.14 10-वर्षीय सरकारी प्रतिभूतियों सममूल्य प्रतिफल (एफबीआईएल)	7.31	7.22	7.35	6.78	6.81
5 संदर्भ दर और वायदा प्रीमियम					
5.1 भा.रु.-अमेरिकी डालर हाजिर दर (₹ प्रति विदेशी मुद्रा)	83.37	83.06	83.25	83.67	84.08
5.2 भा.रु.-यूरो हाजिर दर (₹ प्रति विदेशी मुद्रा)	90.22	87.94	87.90	93.46	90.96
5.3 अमेरिकी डॉलर का वायदा प्रीमियम					
1-माह (%)	1.00	1.88	1.02	1.65	1.49
3-माह (%)	1.11	1.69	1.33	1.74	1.69
6-माह (%)	1.31	1.75	1.71	2.11	2.01
6 मुद्रास्फीति (%)					
6.1 अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	5.4	5.0	4.9	5.5	6.2
6.2 औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	5.19	4.7	4.5	4.2	4.4
6.3 थोक मूल्य सूचकांक	-0.7	-0.1	-0.3	1.9	2.4
6.3.1 प्राथमिक वस्तुएं	3.5	4.4	2.3	6.5	8.1
6.3.2 ईंधन और बिजली	-4.7	-3.3	-1.6	-3.9	-5.8
6.3.3 विनिर्मित उत्पाद	-1.7	-1.3	-1.1	1.1	1.5
7 विदेशी व्यापार (% परिवर्तन)					
7.1 आयात	-5.3	-14.0	10.3	1.5	3.6
7.2 निर्यात	-3.1	-2.8	5.8	0.4	17.2

टिप्पणी : फाइनेंसियल बेचमार्क इंडिया प्रा. लि. (एफबीआईएल) ने भारतीय रिज़र्व बैंक के 31 मार्च 2018 के परिपत्र एफएमआरडी.डीआईआरडी.7/14.03.025/ 2017-18 के अनुसार 31 मार्च 2018 से जी सेक बेचमार्क का प्रकाशन शुरू किया है। एफबीआईएल ने 10 जुलाई 2018 से संदर्भ दरों का प्रसार शुरू किया है।
#: 3 दिसंबर 2021 से 18 नवंबर 2022 तक सभी पखवाड़ों के लिए चुनिंदा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) द्वारा बैंक ऋण वृद्धि और संबंधित अनुपात को पिछली रिपोर्टिंग त्रुटियों के लिए समायोजित किया जाता है।
कोष्ठकों में दिए गए आंकड़ों में एक गैर-बैंक के बैंक के साथ विलय का प्रभाव शामिल है।
*: दिनांक 8 अप्रैल 2022 की प्रेस प्रकाशनी सं. 2022-2023/41 के अनुसार।